

रेलवे भर्ती बोर्ड
डी.आर.एम. ऑफिस के पास,
जी.सी.एस. अस्पताल के सामने, अमदपुरा
अहमदाबाद - 382 345

वेबसाइट: [https://www\[dot\]rrbahmedabad\[dot\]gov\[dot\]in](https://www[dot]rrbahmedabad[dot]gov[dot]in)

ईमेल: [as-rrbadi\[at\]nic\[dot\]in](mailto:as-rrbadi[at]nic[dot]in) टेलिफैक्स: 079-22940858

सावधान: झांसे में न आना, अपना विवेक लगाना

कोई बिचौलिया, दलाल अथवा जॉब रेकेटर आपको रेलवे में नौकरी नहीं दिला सकता

- केवल आपकी योग्यता ही आपको रेलवे में नौकरी दिला सकती है। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षाओं में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटर आधारित है और चयन पूर्णतः उम्मीदवारों की योग्यता पर निर्भर है।
- रेलवे भर्ती बोर्ड कभी भी एजंटों अथवा कोचिंग केन्द्रों को अपने लिए कार्य करने हेतु नामित नहीं करता। रेलवे भर्ती बोर्ड से संबंधित किसी भी सूचना/जानकारी के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ही देखें। रोजगार समाचार पत्र/समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों/सूचनाओं या सोशल मिडिया में प्रसारित रेलवे भर्ती बोर्ड से संबंधित किसी भी सूचना/जानकारी की पुष्टि रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से की जा सकती है।
- दलालों और जॉब रेकेटर्स से सावधान रहें जो आपसे रेलवे में किसी प्रभाव से या फिर दूसरे अनुचित और अनैतिक माध्यम से नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके आपको धोखा देने का प्रयास करते हैं। यदि आपके पास ऐसे जालसाज तत्वों तथा परीक्षा केन्द्रों में उम्मीदवारों/कर्मचारियों द्वारा परीक्षा के दौरान किए गए अनुचित कार्य की सूचना है तो आप **RPF हेल्पलाइन नं. 182 पर 24x7** संपर्क कर शिकायत कर सकते हैं। आप ऐसे तत्वों के विरुद्ध नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- ऐसे उम्मीदवार जो अनुचित कार्यों में संलिप्त पाए जाएंगे उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है।

रेलवे में चयन के लिए हमेशा सही मार्ग चुनें।

अध्यक्ष